



भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI

IIM/20\_\_/26

## पुस्तकालय छात्र सदस्यता फार्म / STUDENTS LIBRARY MEMBERSHIP FORM

नाम/Name: \_\_\_\_\_  
(नाम: जिस तरह कार्ड पर चाहिए केवल 16 अक्षर /Name: as you want on Smart Card-only 16 Characters)

पाठ्यक्रम का नाम /Course name: IE/ IM/ IT/ IS/ FIE/ (Tick): \_\_\_\_\_

अनुभाग/Division: A/ B/ C/ D/ E/ (Tick) \_\_\_\_\_ रोल क्र. /Roll No.: \_\_\_\_\_

ई-मेल/E-mail ID: \_\_\_\_\_

मोबाईल क्र./Mobile No.: \_\_\_\_\_

स्थायी पता/Permanent Address: \_\_\_\_\_

रक्त समूह/Blood group: \_\_\_\_\_ जन्म तिथि/Date of Birth: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/Signature: \_\_\_\_\_ दिनांक/Date: \_\_\_\_\_

### कार्यालयीन उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE ONLY

(सभी काम होने पर हस्ताक्षर करें /Please initial after you complete your job)

सदस्यता क्रमांक/Membership No.: \_\_\_\_\_ वैधता अवधि/Valid upto : \_\_\_\_\_

सत्यापित /Verified: \_\_\_\_\_ दिनांक/Date: \_\_\_\_\_

आंकड़ा प्रविष्टि/Data Entry: \_\_\_\_\_ छायाचित्र/Photo: \_\_\_\_\_

अंगूठे का निशान/Thumb : \_\_\_\_\_ कार्ड छपाई/Card Printing: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/Signature: \_\_\_\_\_

पुस्तकालय अधिकारी/Library Officer